

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 453] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 1966/पौष 10, 1888
No. 453] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 1966/PAUSA 10, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 31st December 1966

S.O. 4047.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 196-Customs, dated the 26th October, 1966, namely:—

In the said notification in the 2nd paragraph, for the figures, letters and word "31st December, 1966" the figures, letters and word "31st March, 1967" shall be substituted.

[No. 213/90/120/66-LCI.]

D. P. ANAND, Addl. Secy.

(1783)

